



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 अग्रहायण 1946 (श10)

(सं0 पटना 1157) पटना, सोमवार, 9 दिसम्बर 2024

सं० अ०सं०क०-08-ग-आ०वि०स्था०-11/2023(खण्ड-1)-3689
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

20 नवम्बर 2024

विषय:— अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-4687, दिनांक-13.09.2023 में निर्धारित शर्तों एवं दरों के अनुरूप जीविका से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण किया गया है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ रोजमर्रा की सामग्री आदि भी मुफ्त उपलब्ध कराया जायेगा ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के युवक/युवतियों को उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध कराकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।

2. अल्पसंख्यकों के परिवारों से आने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वोत्तीर्ण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य में किशनगंज एवं दरभंगा जिला में नवनिर्मित आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाना है।

3. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-19.11.2024 में मद संख्या-03 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-4687, दिनांक-13.09.2023 में निर्धारित शर्तों एवं दरों के अनुरूप जीविका से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है।

4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-4687, दिनांक-13.09.2023 में निर्धारित शर्तों एवं दरों के अनुरूप जीविका से सेवा प्राप्त की जाएगी। (अनुलग्नक-1)

5. **बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता:**—मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष- 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0001-आवासीय विद्यालय विपत्र कोड सं०-30-2225042770001 से विकलनीय होगा।

6. यह संकल्प निर्गत की तिथि प्रभावी माना जायेगा।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को “बिहार राजपत्र” के असाधारण अंक में सर्वधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो०सोहैल,
सरकार के सचिव।

संचिका संख्या-4/निदे0 आ0वि (जीविका)-06-05/2021-4687

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

दिनांक:-13/09/2023

विषय:- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य संशोधित दर पर बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131३(ड) के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने एवं व्यय की स्वीकृति।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों से आनेवाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य में 87 आवासीय विद्यालय संचालित हैं तथा राज्य सरकार के द्वारा नये आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति दी गयी है।

विभागीय पत्रांक-1631 दिनांक-27.08.2020 द्वारा विभाग के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के आवासियों की दैनिक आवश्यकताओं एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों एवं दर की स्वीकृति दी गई है।

उक्त के क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना, शेखपुरा, बेगूसराय, पश्चिम चम्पारण और सहरसा जिला में संचालित 14 आवासीय विद्यालयों में "दीदी की रसोई" के माध्यम से विद्यार्थियों को शुद्ध, स्वादिष्ट, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन (जलपान सहित) उपलब्ध कराया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के उपरान्त मेस संचालन के सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए हैं एवं "दीदी की रसोई" से जुड़ी महिलाओं का मनोबल बढ़ रहा है।

2. सभी आवासीय विद्यालयों में बेहतर एवं सुदृढ़ सेवा प्रदान करने तथा आवश्यक सुविधाओं को उत्तम बनाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में मेस संचालन(जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से निम्नांकित शर्तों पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य संशोधित दर पर बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131३(ड) के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई

की सेवा का कार्य के लिए बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के साथ अनुबंध किया जायेगा।

- (iii) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के पत्रांक-5396 दिनांक-03.01.2023 द्वारा प्राप्त समझौता ज्ञापन (M.o.U) के अनुसार विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा भोजन (जलपान सहित) ₹99/- -(निन्यानवे रू0) प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन की निर्धारित दर पर मेस संचालन की स्वीकृति दी जाती है।

अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार ₹22,91,40,000/- (बाईस करोड़ इक्यानवे लाख चालीस हजार रुपये) मात्र संभावित होगा।

(परिशिष्ट-1 एवं संलग्न मेनू)

- (iv) आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति –

- (क) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन द्वारा आवासीय विद्यालय में आवासित छात्र-छात्राओं के लिए पोशाक आपूर्ति की जाएगी। विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित निम्नांकित दर पर पोशाक प्रति 2(दो) सेट प्रति विद्यार्थी आपूर्ति की जाएगी :-

क्रमांक	मद	कक्षा (1 से 8)	कक्षा (9 से 12)
1	बालक	₹ 900 प्रति विद्यार्थी	₹ 1350 प्रति विद्यार्थी
2	बालिका	₹ 1150 प्रति विद्यार्थी	₹ 1400 प्रति विद्यार्थी

प्रत्येक बालक एवं बालिका को 4 सेट पोशाक देय होगा। बालक एवं बालिकाओं के पोशाक विभाग द्वारा निर्धारित किये गये उपयुक्त वस्त्र एवं रंग शामिल होगा।

अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में अनुमानित वार्षिक व्यय भार ₹7,39,12,000/- (सात करोड़ उन्चालीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र संभावित होगा।

- (ख) पोशाक की जीविका से अधिप्राप्ति एवं वितरण, संचालित आवासीय विद्यालयों से प्राप्त “इण्डेन्ट” के आधार पर, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (ग) पोशाक के क्रय हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पत्रांक-1631 दिनांक-27.08.2020 द्वारा तेल, साबुन, सर्फ, दवा वस्त्र हेतु DBT के लिए निर्धारित दर ₹7,500/- (सात हजार पाँच सौ रूपया) प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष में से पोशाक की राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जो माँग एवं आपूर्ति किये जाने के आधार पर केन्द्रीकृत भुगतान, जीविका संपोषित सामुदायिक संगठन को करेंगे तथा अवशेष अन्तर राशि निम्न प्रकार से विद्यार्थियों को DBT किया जाएगा :-

क्रमांक	मद	कक्षा (1 से 8)		कक्षा (9 से 12)	
		पोशाक की राशि (4 सेट)	DBT की राशि	पोशाक की राशि (4 सेट)	DBT की राशि
1	बालक	₹ 1800 प्रति विद्यार्थी	₹ 5700 प्रति विद्यार्थी	₹ 2700 प्रति विद्यार्थी	₹ 4800 प्रति विद्यार्थी
2	बालिका	₹ 2300 प्रति विद्यार्थी	₹ 5200 प्रति विद्यार्थी	₹ 2800 प्रति विद्यार्थी	₹ 4700 प्रति विद्यार्थी

(iv) पोशाक की धुलाई की सेवा एवं विद्यालय भवनों एवं परिसर की साफ-सफाई –

(क) **पोशाक की धुलाई** में विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, चादर (तकिया-गिलाफ सहित), पोशाक, अन्य सभी वस्त्रों की सफाई निस्संक्रामक (Disinfected), ब्लीचिंग (आवश्यकतानुसार) एवं सुखाना शामिल होगा। विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर ₹ 30/- (तीस मात्र रूप) प्रति किलोग्राम (Consumables सहित) का दर अनुमान्य होगा। इसके लिए एक सप्ताह में एक बार चार सेट पोशाक एवं एक चादर (तकिया-गिलाफ सहित) अधिकतम अनुमान्य होगा।

अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में अनुमानित वार्षिक व्यय भार ₹ 8,20,80,000/- (आठ करोड़ बीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र संभावित होगा।

(ख) **विद्यालयों के साफ-सफाई** में विद्यालय के सभी भवन एवं पूरा परिसर (टॉयलेट/प्रसाधन सहित) शामिल होगा। विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर ₹ 11/- प्रति विद्यार्थी प्रति दिन अनुमान्य होगा।

अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में अनुमानित वार्षिक व्यय भार

₹ 13,73,13,000/- (तेरह करोड़ तिहत्तर लाख तेरह हजार रुपये) मात्र संभावित होगा।

(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सेवाओं के विरुद्ध राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को उपलब्ध करायी जाएगी।

(vi) भोजन(जलपान सहित), पोशाक आपूर्ति, विद्यालय भवनों एवं परिसर की साफ-सफाई तथा पोशाक धुलाई पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा राज्य स्कीम अन्तर्गत सुसंगत विषय शीर्ष यथा-सामग्री एवं पूर्तियां मद तथा व्यावसायिक/संविदा सेवायें मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उपरोक्त सेवाओं का कार्य मूल्यांकन संतोषजनक रहने पर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए 5 (पाँच) प्रतिशत वार्षिक मूल्य वृद्धि की जायेगी एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सेवाओं के विरुद्ध आवश्यकतानुसार अग्रिम राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को उपलब्ध करायी जाएगी।

- (viii) जीविका द्वारा सभी आवासीय विद्यालय के भवनों एवं परिसर की साफ-सफाई को साफ-सफाई की सेवाएँ अनिवार्य रूप से सप्ताह के सातों दिन चक्रीय रूप से 24×7 उपलब्ध कराई जायेगी। पोशाक की धुलाई की सेवाएँ भी आवश्यकतानुसार निर्बाध रखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी जीविका की होगी।
- (ix) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा इस व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किया जाएगा। जीविका के माध्यम से इन सेवाओं को प्राप्त किये जाने एवं जीविका द्वारा किये जा रहे कार्यों के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण तथा आवश्यक भार्गदर्शिका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।
- (x) प्रथमतः अनुबंध तीन वर्षों के लिए किया जायेगा। इस अवधि में विभाग द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का सतत् अनुश्रवण, कार्य की गुणवत्ता एवं परिणाम का मूल्यांकन कराया जायेगा। प्राप्त सेवाएँ मानक स्तर की पाये जाने पर अवधि विस्तार, विभाग द्वारा किया जा सकेगा।
- (xi) उक्त कार्यों के लिए आवश्यक स्थान/कमरा (बिजली, पानी तथा प्रसाधन की व्यवस्था सहित) जीविका को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा विद्यालय परिसर में उपलब्ध कराया जायेगा।

3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्वीकृति संख्या-1631 दिनांक-27.08.2020 की परिशिष्ट-I की क्रम संख्या 1, 2 एवं 10 तथा परिशिष्ट-III की क्रम संख्या 1, 2 एवं 8 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

4. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दिवेश सेहरा,
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग
मार्गदर्शिका

संकल्प संख्या-4687 दिनांक-13.09.2023 की कंडिका-2(ix) के अनुपालन में आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के विद्यालय परिसर की साफ-सफाई का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने के लिए भौतिक, पंजी संधारण, लेखा संधारण एवं अनुश्रवण हेतु प्रक्रिया

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के आवासियों को विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के कार्य हेतु संकल्प संख्या-4687 दिनांक-13.09.2023 निर्गत की गई है। विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (MoU) किया जायेगा।

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से विद्यालय परिसर की साफ-सफाई कार्य हेतु संकल्प और समझौता ज्ञापन(MoU) में अंकित बिन्दुओं के कार्यान्वयन के लिये एवं उसके अतिरिक्त निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित किए जाते हैं:-

2.1. विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्था:-

- (i) जीविका द्वारा नामित सामुदायिक संगठन के माध्यम से विद्यालय परिसर की साफ-सफाई कराया जाएगा।
- (ii) विद्यालय एवं विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की सेवा सुबह 5.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक निर्बाध रखने की सम्पूर्ण जबाबदेही जीविका की होगी। नामित सामुदायिक संगठन के द्वारा सुबह में गतिविधि प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यालय परिसर/शौचालय की साफ-सफाई का प्रथम चरण पूर्ण कर ली जाएगी। इसके लिए समयावधि निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार कम किया जा सकता है।
- (iii) विहित प्रपत्र अनुलग्नक-1 के अनुसार चिन्हित स्थल की साफ-सफाई प्रतिदिन एवं साप्ताहिक रूप से किया जाएगा एवं विद्यालय परिसर में एक कमरा, जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(अनुलग्नक-1)

- (iv) प्रधानाध्यापक एवं उनके द्वारा नामित शिक्षक/कर्मियों के द्वारा दैनिक रूप से एकाधिक बार परिसर, शौचालय/स्नानागार आदि की सफाई व्यवस्था का सत्यापन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधक द्वारा उनके भ्रमण में एवं जिला कल्याण पदाधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारियों के निरीक्षण क्रम में विद्यालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। सफाई व्यवस्था की गुणवत्ता के आधार पर उसके लिए 'संतोषप्रद', 'अच्छा' अथवा 'असंतोषप्रद'(साक्ष्य सहित) अभ्युक्ति निरीक्षणों में अनिवार्य रूप से अंकित की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति विहित प्रपत्र में जिला कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(अनुलग्नक-2)

- (v) आवासित छात्रों को देय लम्बी अवकाश की अवधि (यथा-ग्रीष्मावकाश/शीतकालीन अवकाश) में भी विद्यालय परिसर की साफ सफाई का कार्य जारी रहेगा। चूंकि अवकाश की अवधि में साफ-सफाई कार्य सीमित होंगे अतः इसके लिए अवकाश प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व के माह की औसत छात्रोपस्थिति के आधार पर समतुल्य व्यय की राशि का 50 प्रतिशत या M.o.U की कंडिका-1.7 में निहित शर्तों के अनुसार, साफ-सफाई में संलग्न कर्मियों को ₹200/- (दो सौ रूपया) प्रति दिन प्रति कर्मियों की दर से अवकाश अवधि के आधे दिन की राशि में से, जो कम होगा, उसका भुगतान किया जाएगा।
- (vi) किसी भी माह में नामांकन का 50 प्रतिशत से कम के आधार पर भुगतान नहीं किया जाएगा।

2.2. विपत्रों की निकासी एवं लेखा संधारण

- (i) जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के लिए नामांकित छात्र बल के अनुसार निर्धारित दर पर विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह के अंतिम दिन जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।

(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न)

- (ii) जिला कल्याण पदाधिकारी विपत्र में अंकित छात्र/छात्राओं की संख्या एवं राशि का सत्यापन अगले तीन दिनों में प्राचार्य एवं आवासीय विद्यालय प्रबंधक से करायेंगे (विहित प्रपत्र **अनुलग्नक-4**) एवं आवश्यकतानुसार स्वयं भी जाँच करेंगे।
- सत्यापन में तिथिवार छात्रोपस्थिति, निरीक्षणों में सफाई की गुणवत्ता के आधार पर प्राप्त विपत्र की जांच की जाएगी। निरीक्षणों में अंकित सफाई के किसी भी विवरण में 2 असंतोषजनक अभ्युक्ति के लिए उक्त तिथि के भुगतेय राशि से **5 प्रतिशत की कटौती**, 3 से अधिक एवं 5 से कम असंतोषजनक अभ्युक्तियों के लिए **10 प्रतिशत और 5 से अधिक असंतोषजनक अभ्युक्तियों के लिए संदर्भित तिथियों निरीक्षण तिथियों के लिए भुगतेय कुल राशि में से 20 प्रतिशत राशि की कटौती** विपत्र से करने के उपरांत ही विपत्र को अनुमोदित किया जाएगा। निरीक्षणों में सफाई के मानक गुणवत्ता से कम गुणवत्ता की सफाई का साक्ष्य, फोटोग्राफ सहित विद्यालय प्रधानाध्यापक रक्षित करेंगे। भुगतान/स्वीकृति हेतु विपत्र की एकरूपता के लिए विहित प्रपत्र **अनुलग्नक-5** के रूप में संलग्न है।
- (iii) उपरोक्त कटौती प्रावधान व्यवस्था प्रारम्भ होने के प्रथम तीन माह लागू नहीं होंगे। **3-6 माह तक कटौती प्रावधान के आधे दर पर कटौती होगी तथा 6 माह के बाद उपरोक्त कटौती प्रावधान पूर्णतः लागू हो जायेंगे।**
- (iv) जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की **1^{वीं} तिथि से 10^{वीं} तिथि तक** विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की राशि का समायोजन एवं भुगतान निम्नवत् करेंगे:-
- जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा साफ-सफाई कार्य में 1 माह के व्यय की समतुल्य अनुमानित राशि की अग्रिम निकासी 15^{वीं} से 20^{वीं} अप्रैल तक करते हुए जीविका के चिन्हित बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।
 - माह के अंत में विपत्र जिला कल्याण कार्यालय में जीविका द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कल्याण पदाधिकारी विपत्र के सत्यापनोपरांत विपत्र को अनुमोदित करेंगे तथा Fully Vouched Contingent Bill के आधार पर निकासी कर जीविका के चिन्हित खाते में राशि का अंतरण करेंगे।
 - जीविका के द्वारा प्रथम 4 माह का अभिश्रव Fully Vouched Contingent Bill के आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा निकासी की जाएगी। पांचवें माह के अभिश्रव को प्रथम माह के पूर्व दिए गए अग्रिम से समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार 5 माह के चक्र के पूर्ण होने पर पुनः छठे माह के पूर्व जीविका को 1 माह के व्यय की समतुल्य अनुमानित राशि की अग्रिम निकासी AC विपत्र से कर उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रक्रिया चक्रानुसार चलते रहेंगी।
- (iv) विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के लिए जीविका को भुगतान किए गए विपत्रों से संबंधित अभिलेखों का संधारण विहित प्रपत्र के अनुसार अलग पंजी में करेंगे।

(अनुलग्नक-6)

2.3. अनुश्रवण की व्यवस्था

- विभागीय पत्रांक-6217 दिनांक- 21.12.2023 से गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा विहित एवं निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय परिसर की साफ-सफाई का अनुश्रवण करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह नियमित रूप से संबंधित के साथ समन्वय(Co-ordination) बैठक की करेंगे।
- यथासंभव, विभाग के नामित पदाधिकारी एवं जीविका की संयुक्त टीम द्वारा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई का प्रत्येक माह के **11^{वीं} से 20^{वीं} तिथि तक** स्थलीय जाँच/निरीक्षण किया जाएगा।
- संयुक्त जाँच दल द्वारा स्थलीय जाँच/निरीक्षण में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की अनुशंसा जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी उक्त अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
- यथासंभव, निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जीविका) द्वारा संयुक्त रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबंधक(जीविका) के साथ प्रत्येक माह के **21^{वीं} से 30^{वीं} तिथि** की अवधि में से किसी एक तिथि को उपरोक्त सेवा की समीक्षा की जाएगी।

8	Any Other														
Wee kly															
	Drainage														
	Weeding														
	Wall/Cobwebs														
	Any Other														
	No. of Students Present														
	Jeevike Supervisor's Signature & Name														
	Inspection by (Sign & Name of Auth. Representativ e of JEEVIKA). As on when done														
	Signature of Principal/Teac her Incharge & Name														

Items to be cleaned on 3 hourly basis from SAM to 11AM

Note:-Remarks to be categorised 'Good(G)' Satisfactory (S)' & 'Not Satisfactory(NS)'

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संतोषित सामुदायिक संगठन द्वारा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के भुगतान हेतु विपत्र:-

[illegible]

जिला परियोजना प्रबंधक
(जीविका)

Date:-

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन द्वारा आवासीय विद्यालयों के परिसर साफ-सफाई सेवा के विपन्न भगतान हेतु:-

1. विद्यालय का नाम—
2. जिला का नाम—
3. प्रखण्ड का नाम—
4. मेस संचालन के लिए नामित सामुदायिक संगठन का नाम:—
5. माह— वर्ष— में कुल विद्यार्थियों की संख्या :-

[illegible]

(अभिप्रेमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम एवं मुहर सहित))

प्रमाणित किया जाता है कि आवासीय विद्यालय में उपस्थिति एवं साफ-सफाई के लिए संधारित पंजी से मिलान किया गया एवं उपरोक्त के आधार पर अनुशंसा की जाती है।

प्रधानाध्यापक

विद्यालय प्रबंधक

अनुलग्नक-5

स्वीकृत्यादेश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु संकल्प संख्या-4687 दिनांक-13.09.2023 के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (M.O.U) किया गया है, जिसके आलोक में डॉ० भीमराव अम्बेडकर +2 आवासीय विद्यालय....., के परिसर साफ-सफाई की सेवा उपलब्ध कराने के पश्चात् जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) ने Refrence No:- Date:- द्वारा समर्पित किया गया है, जिसका सत्यापन प्राचार्य एवं विद्यालय प्रबंधक से कराया गया है।

2. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आवंटनादेश संख्या- दिनांक- द्वारा सामग्री एवं पूर्तियां मद में आवंटन प्राप्त है। उक्त आवंटनादेश के विपत्र कोड:- 44-222501277003(21.01) के आवंटन से निम्न प्रकार राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	सामुदायिक संगठन का नाम	विपत्र सं०/ तिथि	अभिध्व की राशि	जी०एस०टी० @ 2%	आयकर @ 2%	कुल कटौती	शुद्ध भुगतान राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल योग-									

3. आवासीय विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के लिए अधिकृत सामुदायिक संगठन को भुगतान हेतु विपत्र की कुल राशि मो०-.....मात्र बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के खाता सं०..... एवं IFSC Code में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला कल्याण पदाधिकारी

अनुलग्नक-6

जिला में अभिलेख संधारण पंजी

क्रम संख्या	जीविका द्वारा विद्यालय परिसर साफ-सफाई के विपत्र भुगतान का Ref. No- Date:-	जिला कल्याण कार्यालय में विपत्र प्राप्ति की तिथि	विपत्र सत्यापन की तिथि	कोषागार से विपत्र समर्पित करने की तिथि	कोषागार से विपत्र पारित करने की तिथि	विपत्र की राशि	UTR No.

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०सं०-03/निदे०आ०वि०(जीविका)०६-०५/२०२१(खण्ड)-८६१

प्रेषक,

श्याम बिहारी मीणा,

निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

सभी जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका)।

प्रसंग— विभागीय पत्रांक-६५ दिनांक ०५/०१/२०२४

पटना, दिनांक-०८/०२/२०२४

विषय—आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु जीविका द्वारा संचालित मेस के लिए मेन्यू में आंशिक संशोधन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था हेतु मेनू में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधन के प्रस्ताव पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि संशोधित मेनू के अनुसार जीविका के माध्यम से मेस संचालन कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ह०) अस्पष्ट,

निदेशक।

आवासीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु मेनू का निर्धारण

क्र०	दिन	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	संध्या का नाश्ता	रात्रि का भोजन
1	2	3	4	5	6
1	सोमवार	(क) 2 स्टफ्ड पराठा (आलू/सत्तू/गोभी/मेथी) (ख) 50 ग्राम दही (ग) चटनी (घ) अचार	(क) चावल (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) सलाद (ङ) 50 ग्राम दही (च) चटनी	(i) (क) 2 कचौड़ी या (ii) 2 समोसा-2 (ख) चटनी (ग) 1 मौसमी फल (i या ii में से कोई एक)	(क) रोटी (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) 50 ग्राम खीर
2	मंगलवार	(i) (क) पोहा/चूड़ा फ्राई (ख) चना घुघनी या (ii) (क) ब्रेड जैम एवं बटर (ग) 100 एम०एल० दूध (i या ii में से कोई एक)	(क) चावल (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी फ्राय (घ) 50 ग्राम दही (ङ) चटनी (च) पापड़	(i) (क) 1 प्लेट चाउमीन या (ii) ब्रेड पकौड़ा-2 (i या ii में से कोई एक)	(क) रोटी (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) 50 ग्राम सेवई (मीठी)
3	बुधवार	(क) पूड़ी (मध्यम साईज-5) (ख) सब्जी (ग) 100 एम०एल० दूध या 50 ग्राम दही	(क) चावल (ख) दाल (ग) 2 पीस अंडा करी (शाकाहारी-25 ग्राम पनीर/बेसन की सब्जी) (घ) सलाद (ङ) 1 पीस मिठाई	(क) चूड़ा फ्राय (ख) चना घुघनी (ग) 1 मौसमी फल	(क) रोटी (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) 50 ग्राम खीर

क्र०	दिन	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	संध्या का नाश्ता	रात्रि का भोजन
1	2	3	4	5	6
4	गुरुवार	(क) इडली-4 (ख) बड़ा-1 (ग) सांभर (घ) चटनी	(क) चावल (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) सलाद (ङ) 50 ग्राम दही (च) चटनी	(i) (क) 1 प्लेट नूडल्स या (ii) उपमा (i या ii में से कोई एक)	(क) रोटी (ख) दाल (ग) पनीर की सब्जी (घ) सेवई (मीठी)
5	शुक्रवार	(क) 3 ब्रेड रोल (ख) 1 वेज सैंडविच (ग) चटनी	(क) चावल (ख) दाल (ग) 2 पीस अंडा करी (शाकाहारी-25 ग्राम पनीर/बेसन की सब्जी) (घ) सलाद (ङ) 1 पीस मिठाई	(क) 100 ग्राम सूजी का हलवा मीठा	(क) रोटी (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) सलाद
6	शनिवार	(i) (क) 2 स्टफ्ड पराठा (आलू/सत्तू/गोभी/मेथी) (ख) 50 ग्राम (ग) दही (घ) चटनी (ङ) अचार या (ii) (क) ब्रेड बटर एवं जैम (ख) 100 एम0एल0 दूध या (iii) (क) 100 ग्राम चूड़ा (ख) 50 ग्राम दही (ग) चीनी (i, ii या iii में से कोई एक)	(क) चावल (ख) दाल (ग) 2 पीस नन वेज (शाकाहारी-25 ग्राम पनीर एवं मटर की स्पेशल सब्जी) (घ) सलाद	(क) 2 भेज पकौड़ा (ख) चटनी	(i) (क) खिचड़ी (ख) चोखा (ग) पापड़ या (ii) (क) वेज बिरयानी (ख) रायता (ग) चटनी (i या ii में से कोई एक)
7	रविवार	(क) स्टफ्ड पूरी-4 (ख) मिक्स्ड भेज	(क) चावल (ख) कढ़ी (ग) वेज फ्राय (घ) सलाद (ङ) 50 ग्राम दही (च) चटनी	(क) छेने की मिठाई-2 नग	(क) रोटी (ख) दाल (ग) सोयाबीन की सब्जी (घ) सेवई (मीठी)

नोट- दोपहर तथा रात्रि भोजन में मौसमी सब्जियों का दोहराव नहीं किया जायेगा। प्रति सप्ताह दोपहर/रात्रि के भोजन में न्यूनतम 03 प्रकार की मौसमी सब्जी का प्रयोग अनिवार्य होगा, जिसमें दोपहर-रात्रि भोजनों में एक ही प्रकार की सब्जी का दोहराव नहीं किया जायेगा। प्रति सप्ताह दोपहर/रात्रि भोजनों में देय दाल में न्यूनतम 3 प्रकार के दालों का प्रयोग किया जायेगा, जिसमें दोपहर-रात्रि भोजनों में एक ही दाल का दोहराव नहीं किया जायेगा। माह के 4 शनिवारों के दोपहर के स्पेशल मांसाहारी/शाकाहारी भोजनों में 2 शनिवार चिकन/पनीर 1 शनिवार मछली/राजमा तथा एक शनिवार मटन/छोले दिया जायेगा।

क्षेत्र-विशेष की अभिरुचि/आवश्यकतानुसार मेनू में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदनोपरान्त आंशिक संशोधन किया जा सकता है, जिसकी सूचना मुख्यालय को दी जायेगी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1157-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>